

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्त
में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ
पन्ने है यह मापी पुस्त श्री...उमरुलीदी
सहायक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल....२१५०८८....को निर्गत
किया जाता है।

106/21
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, मधुनी
21/06/21

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2650

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ग मात्रा —

1st on A/c Bill

1

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement
of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
name of work:-				permanent restoration	
of road from	Kashmir			Bagiath	
to mazar mushri under					
F2/2021-2022 under khajari					
Agreement No.				F2/2021-2022	
Agency:- soi Anand prasad madhabani					
Date of Commencement:-	14.12.2021				
Date of Completion:-	13.01.2022				
INDEX (Record measurement date)	16.12.21				
	23.01.21				

item no-① providing laying

G.S. B - 78-II	- --- of ELI	
9	$\frac{1}{2} \times 5.00 \times (5.50 + 5.00)$	
	$\times 0.10 = 2.62 \text{ m}^3$	
	$1 \times 12 \times (2.00 + 1.50)$	
	$\times 0.10 = 1.8 \text{ m}^3$	
	$1 \times 11.00 \times (3.75 + 0.10)$	
	$= 4.12 \text{ m}^3$	
	$1 \times 22.00 \times (3.75 + 3.60)$	
	$\times 0.10 = 8.08 \text{ m}^3$	
	$1 \times 10.00 \times 1.00 \times 0.10 = 1.00 \text{ m}^3$	
	$1 \times 15.00 \times (3.00 + 2.80)$	
	$\times 0.10 = 4.35 \text{ m}^3$	
	$1 \times 32.00 \times (3.30 + 2.50)$	
	$\times 0.10 = 9.92 \text{ m}^3$	
	$\times 0.10 = 4.50 \text{ m}^3$	
	Total = 31.87 m^3	

Continuation

21.92 m^3

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
item no. (3) :- providing laying					
W.B.M - ur - III --- of E.I.T					
Dty. ride TMB P - 02					
Dty = 23.90 m ²					
(@ Rs 38.80/- m ²) = Rs 92,750 = 00					
item no. (4) :- providing laying					
prime coat (S-1) --- of E.I.T					
Dty. ride TMB P - 03					
Dty = 318.67 m ²					
(@ Rs 49.62 / m ²) = Rs 15,812 = 00					
item no. (5) :- providing laying					
Tack coat (R.S-1) --- of E.I.T					
Dty. ride TMB P - 3					
Dty = 318.67 m ²					
(@ Rs 16.80 / m ²) = Rs 5354 = 00					
item no. (6) :- providing laying					
mss - mix sand surface --- of E.I.T					
Dty. ride TMB P - 3					
Dty = 318.67 m ²					
(@ Rs 234.49 / m ²) = Rs 74,725 = 00					
Total = Rs 3,00,002 = 00					
Add 12% wst = Rs 36,000 = 00					
Add 1% L.C.S = Rs 3,000 = 00					
Add S. feed(mil) = Rs 4230 = 00					
Total = Rs 3,43,232 = 00					

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Continuation